

प्रेस नोट दिनांक-06.01.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 28 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त चन्द्रभान उर्फ सदलू पुत्र रामशरण निवासी अर्जुनपुर थाना मऊ चित्रकूट को 18 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधीनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह थाना मऊ
2. आरक्षी इंदल

(ख). उ0नि0 श्री हरीसिंह थाना कोतावाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त पून यादव पुत्र छोटेलाल निवासी परासनटोला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधीनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री हरीसिंह थाना कोतावाली कर्वी
2. महिला आरक्षी मंजूलता
3. महिला आरक्षी नाजिया परवीन

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सागिया देवी पत्नी हसमत अली निवासी तौरा थाना पहाड़ी चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति व परिवारीजन उसके साथ मारपीट करते है तथा खाना खर्चा नही देते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र में मुख्य आरक्षी अरूण कुमार एवं महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 06.01.2021 को आपस में सुलह की गयी । सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 06.01.2021 एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर ग्राम मझगवां में वशिष्ठ नारायण महाविद्यालय में, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड करवी, मिशन रोड,एलआईसी तिराहा, जीजीआईसी इंटर कालेज सीआईसी रोड, पटेल चौराहे पर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा पण्डित शिवकुमार इण्टर कालेज मऊ, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक कस्बा मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ ग्राम कोल मजरा कस्बा बरगढ़ राजकीय इंटर कॉलेज बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा में भ्रमण, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुण्गी चौराहे पर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट द्वारा ग्राम दीपू कोलान और दादू भाई इंटर कॉलेज में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर

लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।